

## बाल दिवस विशेष

### बाल अधिकारों और बाल विवाह निषेधन पर सामुदायिक रेडियो - रेडियो मधुबन की मुहिम

बाल विवाह के श्राप से आज हमारे समाज के कई बच्चे पीड़ित हैं | इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने और बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के लिए माउंट आबू के सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो मधुबन द्वारा इस बाल दिवस पर विशेष कार्यक्रम रेडियो धारावाहिक "बचपन एक्सप्रेस" का शुभारंभ किया जा रहा है | बचपन को बचाने की रेडियो मधुबन की ये मुहिम जिसका उद्देश्य बाल विवाह को हमेशा के लिए अलविदा कहना है। रेडियो मधुबन के केंद्र प्रभारी श्री यशवंत पाटिल ने बताया की इस सामाजिक उपयोगी विषयक रेडियो धारावाहिक के कुल 10 एपिसोड का निर्माण और प्रसारण किया जाएगा

| जिसमें जिला एवं ब्लॉक स्तरीय महिला एवं बाल विकास कार्यालय के अधिकारियों, कानून के जानकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बाल विवाह पीड़ित, उनके मात-पिता और अन्य संबंधित लोगों से वार्तालाप किया जाएगा | जहाँ शिक्षा और बाल विवाह जैसे अहम मुद्दों पर बात-चीत की जाएगी।

यह कार्यक्रम समाज के सभी वर्ग बड़े बूढ़े बच्चे सभी सुन सकते हैं , इसका पहला एपिसोड बाल दिवस यानी 14 नवंबर में प्रसारित होगा | फिर यह कार्यक्रम हर गुरुवार दोपहर 11:30 बजे प्रसारित किया जायेगा और इसका पुनः प्रसारण हर शुक्रवार शाम 5 बजे और हर रविवार शाम 6:30 बजे किया जायेगा। यह कार्यक्रम यूनिसेफ और कम्यूनिटी रेडियो असोसियेशन के सहयोग मार्गदर्शन से, रेडियो मधुबन 90.4 एफ.एम पर फिरसे शुरू हो रहा है | बाल दिवस के खास मौके पर बचपन एक्सप्रेस के पहले एपिसोड में आर.जे.आर.षि मुलाकात करेंगी जोधपुर के सारथि ट्रस्ट की फाउंडर, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड धारक, डॉ. कृति भारती जी से, जिन्होंने कई बाल विवाह निरस्त करा कर अनेक बच्चों को इस सामाजिक श्राप से मुक्त कराया है | सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए 90.4 एफ.एम. रेडियो मधुबन पर "बचपन एक्सप्रेस"।

Contact : 9414082425

### Radio Madhuban 90.4 FM

Community Radio Station

Brahma Kumaris Shantivan Complex

Taleti, Danvav, Abu Road, Dist: Sirohi (Rajasthan)

Listen Online - [www.radiomadhuban.in](http://www.radiomadhuban.in)

Phone- 02974-228888